

पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0

राज्यपाल के जन्म दिवस पर बधाईयों का तांता

केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव सपा प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव ने

फोन पर दी बधाई

मुंबई से भी आये गुलदस्ते

लखनऊ: 16 अप्रैल, 2015

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव ने जर्मनी से फोन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री की ओर से उनके सचिव, श्री आमोद ने राज्यपाल को गुलदस्ता भेंट किया। श्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली से फोन करके उन्हें बधाई दी। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री डी0वाई0 चन्द्रचूड़, आर्मी कमाण्डर, श्री राजन बखशी, मुंबई से रिलायन्स ग्रुप के अध्यक्ष, श्री मुकेश अम्बानी व फादर फ्रांसिस डिबरेटो ने राज्यपाल को गुलदस्ता भेजकर उन्हें फोन पर बधाई दी तथा दीघार्यु होने की कामना भी की।

राज्यपाल से राजभवन में स्वास्थ्य मंत्री, श्री अहमद हसन, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, श्री अम्बिका चौधरी, भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री, श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, ग्राम्य विकास मंत्री, श्री अरविन्द सिंह गोप, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, श्री ओम माथुर व श्री सुनील बंसल ने भेंटकर गुलदस्ता दिया तथा जन्म दिवस की बधाई दी। जिलाधिकारी, लखनऊ, श्री राज शेखर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, श्री यशस्वी यादव, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति, डा0 रविकांत, आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति, श्री मुजम्मिल हुसैन तथा अन्य विश्वविद्यालय व संस्थानों के कुलपतिगण तथा निदेशकगण, कांग्रेस के श्री हीरेन्द्र शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एम0एल0सी0 श्री विन्धवासिनी कुमार, कई समाचार पत्रों के सम्पादक, पत्रकारगण व गणमान्य नागरिकों तथा राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी उनसे मिलकर बधाई दी। मौलाना खालिद रशीद फरंगीमहली, मौलाना कल्बे जव्वाद, मौलाना आगा रूही, श्री शहाबुद्दीन, अध्यक्ष, सुन्नी बोर्ड आफ इण्डिया ने भी राज्यपाल को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी।



प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री अहमद हसन, श्री अम्बिका चौधरी, श्री अरविन्द सिंह गोप व अन्य माननीय राज्यपाल, श्री राम नाईक को उनके जन्मदिन पर पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए।





मा10 मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव की ओर से उनके सचिव, श्री आमोद कुमार माननीय राज्यपाल, श्री राम नाईक को उनके जन्मदिन पर पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए।



जिलाधिकारी, लखनऊ श्री राजशेखर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, श्री यशस्वी यादव माननीय राज्यपाल, श्री राम नाईक को उनके जन्मदिन पर पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए।